

बलिया दर्शन



VOLUME 38

01/OCT/2019 TO
31/OCT/2019

ई-पत्रिका



E NEWSLETTER 1

स्वच्छ बलिया स्वस्थ बलिया



श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा
(अधिशायी अधिकारी)




श्री अजय कुमार (अध्यक्ष)

I am delighted to present the tasks and issue of Ballia Nagar Palika by e Patrika Ballia Sandesh in October 2019. Nagar Palika Parishad Ballia is grateful to the citizens who displayed tremendous enthusiasm and whole heartedly participated in numerous activities throughout this period. All of us should bear in mind that this is not end but a beginning of the exercise pertaining to development and Swachh Mission program. The coming times will surely be very hectic and eventful. Ballia promises to leave no room for complacency and will work even harder to achieve the targets. We solicit active participation from the citizens in our endeavor. We sincerely believe that decisions taken by Nagar Palika Parishad Ballia should benefit Nagar Palika Parishad Ballia and the citizens in the ultimate analysis. Many projects process in work in Nagar Palika Parishad Ballia for development our Nagar Palika and citizens. Thanks to all citizens of Nagar Palika Parishad Ballia for supporting to develop Ballia.

(महात्मा गांधी जयंती)

02/10/2019

गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है. देश को आजादी दिलाने वाले बापू की याद में 2 अक्टूबर (October 2) यानी उनकी जयंती के दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. गांधी जी (Mahatma Gandhi) का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. 2 अक्टूबर के दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. गांधी जयंती ([Gandhi Jayanti](#)) के दिन लोग राजघाट नई दिल्ली में गांधी प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है. गांधी जयंती के मौके पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस दौरान कई स्टूडेंट्स भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते हैं. इस गांधी जयंती पर अगर आप भाषण (Gandhi Jayanti Speech) देने वाले हैं तो आप इस तरह का भाषण दे सकते हैं:



खादी मेरी शान है।
कर्म ही मेरी पूजा है।
सच्चा मेरा कर्म है।
और हिंदुस्तान मेरी जान है।
गांधी जयंती
की शुभकामनाएं

02/10/2018

Happy
Gandhi
Jayanti



Dussehra (दशहरा)

08/10/2019

शारदीय नवरात्र के समाप्त होते ही हर साल दशहरा यानी विजय दशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार दशहरा 8 अक्टूबर, मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री राम से लंकेश रावण ने पूरे 10 दिन वध किया। जिसके बाद श्रीराम ने उनका वध किया। जिसके कारण इसे अधर्म में धर्म के विजय के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व होता है।

दशहरा के दिन दोस्त, रिश्तेदार एक-दूसरे के घर जाते हैं। इसके साथ ही लंका दहन का कार्यक्रम रखा जाता है। आप भी अधर्म में धर्म की विजय को दूसरों के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं तो अपने करीबियों और दोस्तों को इस खास मैसेज को भेजकर दें शुभकामनाएं।



(महर्षि वाल्मीकि जयंती)



13/10/2019

हिन्दुओं के आदि काव्य रामायण (Ramayan) के रचयिता और संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि (Maharishi Valmiki) के जन्म दिवस को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. कहा जाता है कि वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, लेकिन फिर ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनको बदलकर रख दिया. वाल्मीकि (Valmiki) का व्यक्तित्व असाधारण था. यह उनके चरित्र की महानता ही है जिसने उन्हें इतना बड़ा कवि बनाया. उनका जीवन और चरित्र आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी है. देश भर में [महर्षि वाल्मीकि](#) की जयंती (Valmiki Jayanti) पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत्क्रौंचमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् ॥

वाल्मीकि जयंती देश भर में धूम-धाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. इस मौके पर मंदिरों में पूजा-अर्चना कर वाल्मीकि जी की विशेष आरती उतारी जाती है. साथ ही वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं. इस दिन रामायण का पाठ और राम नाम का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है.



Karva Chauth (कर्क चतुर्थी)

17/10/2019

हिंदू धर्म में करवा चौथ (Karva Chauth) का त्योहार बहुत ही खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जिसके बाद दिन भर मां पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है और शाम के समय चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला जाता है। इस दिन तैयारियां महिलाओं ने शुरू कर दी है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती है। जिसकी तैयारी के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे में अगर पूजा करते समय किसी सामग्री की कमी हो जाती है तो आपका थोड़ा सा मन इधर-उधर भागने लगता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी करवा चौथ की सामग्री और सोलह श्रृंगार की लिस्ट। जिससे बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।



धन्य वह देवी जो पति सुख हेतु व्रत पावे,
धन्य वह पति जो देवी रूप पत्नी पावे,
धन्य वह स्वरूप जो मनुष्यता का दीप जलावे.

करवा चौथ की शुभकामनाएं



आज करवाचौथ पर मन में हजारों चाह हैं,
सब सुहागिन तक रही केवल तुम्हारी राह हैं,
चाहती हैं सजनियां साजन बसे हों पास में।
आ भी आओ चन्द्रमा तारों भरे आकाश में।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

Deepavali (दीवाली/दीपावली)

27/10/2019

दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बड़ा त्योहार है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस बार यह 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली पर धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति की पूजा की जाती है, जो भक्तों पर बुद्धि और धन की वर्षा करते हैं। दिवाली पर मां लक्ष्मी की विशेष अराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो जीवन भर धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि आती है। इस मौके पर सभी अपने दोस्तों रिश्तेदारों और अपनों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आप भी इस दिवाली अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश:

कर्क-

सकारात्मक-कुल मिलाकर ठीक चल रहे हैं। बस मन पर काबू रखने की जरूरत है।
नकारात्मक-बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। क्या करें, क्या न करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। परेशानी में पड़ सकते हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। परेशानी में आ सकते हैं। भावुकता पर नियंत्रण जरूरी है।
प्रेम-कई तरह की स्थितियां चल रही हैं। विकल्प मिल रहे हैं। सूझबूझ से काम लीजिए।
व्यवसाय-ठीक स्थिति है।

सेहत-करीब-करीब ठीक है।


उपाय-पीली वस्तु पास रखें।



Govardhan Puja (गोवर्धन पूजा)

28/10/2019

पूरे विश्व में हिंदुओं ने सक्रिय रूप से अन्नकूट का जश्न मनाया जाता है और अक्सर, दीपावली समारोह के चौथे दिन गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट उत्सव जोड़ा जाता है। यह लेख पाठकों को पूजा के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे विधी, समय और महूरत। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। श्री श्री रवि शंकर जी बताते हैं की दीपावली के उत्सव के चौथे दिन को वर्षप्रतिपदा और राजा विक्रम के राज्याभिषेक के नाम से जाना जाता है। इस दिन शाम के समय में विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय लोकजीवन में इस पर्व का अधिक महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोककथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानि गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसलिए गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ पर ऊठा लिया था। अन्नकूट पूजा को अत्यधिक कृतज्ञता, जुनून और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है।



Bhai Duj (भैया दूज)

29/10/2019

भैया दूज भारत का एक सबसे प्रमुख और महान त्योहार है जब बहने अपने प्रिय भाइयों के लिए लंबे समय तक जीवित और समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। बहने इस दिन भाईओं की पूजा करती है और टिका लगाती है। इसके साथ-साथ बहने भाइयों से उपहार लेती हैं। इसे गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाई बीज, नेपाल में भाई टीका, बंगाल में भाउ-दीज, भाई फोटा और मणिपुर में निंगोल चकबा के रूप में मनाया जाता है।

भैया दूज भारत का एक सबसे प्रमुख और महान त्योहार है जब बहने अपने प्रिय भाइयों के लिए लंबे समय तक जीवित और समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। बहने इस दिन भाईओं की पूजा करती है और टिका लगाती है। इसके साथ-साथ बहने भाइयों से उपहार लेती हैं। इसे गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाई बीज, नेपाल में भाई टीका, बंगाल में भाउ-दीज, भाई फोटा और मणिपुर में निंगोल चकबा के रूप में मनाया जाता है।

भैया दूज भारत का एक सबसे प्रमुख और महान त्योहार है जब बहने अपने प्रिय भाइयों के लिए लंबे समय तक जीवित और समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। बहने इस दिन भाईओं की पूजा करती है और टिका लगाती है। इसके साथ-साथ बहने भाइयों से उपहार लेती हैं। इसे गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाई बीज, नेपाल में भाई टीका, बंगाल में भाउ-दीज, भाई फोटा और मणिपुर में निंगोल चकबा के रूप में मनाया जाता है।



नुक्कड़ नाटक से कुपोषण के प्रति किया जागरूक

बलिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग (आईएस) के मार्गदर्शन में 'जश्न-ए-सुपोषण' की टीम ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहर व ददरी मेला में नाटक प्रस्तुत कर कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया। नाटक के जरिए एनीमिया के लक्षण व बचाव के तरीके बताए। टीडी कालेज चौराहे से शुरू हुए नाटक को डीएम श्रीहरि

प्रताप शाही, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह व डीपीओ अन्नपूर्णा गर्ग समेत सैकड़ों आम लोगों ने देखा। कलाकारों ने निःशुल्क टीकाकरण, पोषाहार वितरण, गर्भवती माताओं और बच्चों के देखभाल के तरीके को नाटक के जरिए समझाया। शौचालय बनवाने और शौच के लिए उसका ही प्रयोग कर अनेकों बीमारियों से बचने की बात समझाई।



कुपोषण के प्रति जागरूकता अभियान को गति देने के लिए शहर के टीडी कॉलेज चौराहे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार। • हिन्दुस्तान

ग्रामीण क्षेत्र में लगे मेले में लोगों ने की खरीदारी

बलिया | निज संवाददाता

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा पर लगे मेले में लोगों ने खूब खरीदारी की। इसमें बच्चों व महिलाओं की भारी भीड़ रही। इससे पहले भोर में लोगों ने गंगा, तमसा व सरयू नदी में गोता लगाया। उन्होंने दान-पुण्य करने के साथ ही गंगा पूजा भी की।

शहर से सटे सागरपाली के सामने तमसा (टोंस) नदी में सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को डुबकी लगायी। इसके बाद उन्होंने नदी तट पर लगे मेला में चाट-छोला व गुड़ही जलेबी का आनंद लिया। बच्चों ने मेला में लगी दुकानों से खिलौनों की खरीदारी की। सुरक्षा के लिये एसओ फेफना शशिमौली पांडेय फोर्स के साथ तैनात रहे। **बिल्थरारोड**

हलचल

- रामगढ़, लालगंज, सिकन्दरपुर में मेले में महिलाओं की रही भीड़
- बच्चों ने खिलौने की खरीदारी सुरक्षा में लगे रहे जवान

हिसं के अनुसार खैरा मठ, गुलौरा-मठिया शिव मंदिर घाट, तुर्तिपार घाट, बिल्थरा बाजार घाट, हल्दी रामपुर, सहियां आदि जगहों पर हजारों लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगायी। स्नान के बाद लोगों ने पूजा-पाठ कर भगवान भाष्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान तुर्तिपार मौनी बाबा घाट पर लगे मेला का आनंद लिया। सुरक्षा के लिये एसओ उभांव योगेंद्र बहादुर सिंह, एसआई रामसिंह यादव थे।



कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को गंगा स्नान के बाद ददरी के मीना बाजार के पहले दिन खरीदारी व मेला देखने के लिए उमड़ी भीड़। • हिन्दुस्तान




कुपोषण के प्रति जागरूकता अभियान को गति देने के लिए शहर के टीडी कॉलेज चौराहे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार। • हिन्दुस्तान

ददरी मेला बलिया

NewVideo

Dadri Mela Ballia 2019



बलिया में नगरा बीडीओ को हटाने का आदेश


आजमगढ़ | निखं

मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने गुरुवार की देर शाम को आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले में पंचायती राज विभाग के तहत कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। कई विकास खण्डों में कार्यों की प्रगति खराब मिलने पर बीडीओ नगरा को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही शौचालय की बड़ी मात्रा में धनराशि लाभार्थियों के खाते में न भेजे जाने पर रसड़ा, बेरुआरबारी एवं मुरलीछपरा के बीडीओ की विस्तृत जांच करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया।

कार्रवाई

- रसड़ा व मुरलीछपरा के बीडीओ की होगी जांच
- मंडलायुक्त ने की बलिया जिले की समीक्षा

मंडलायुक्त ने असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि शौचालयों की धनराशि रोके रखना संदेहास्पद है। उप निर्देशक पंचायती राज को निर्देश दिया कि जिन विकासखंडों में धनराशि ट्रांसफर किया जाना शेष है उनसे संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चार्जशीट निर्गत की जाय।





स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

जब होगी हर डगर, हर गली साफ |
तो ही पूरी होगी स्वच्छ भारत की आस ||

हर गाँव हर शहर होगा जब साफ |
तभी हो पाएगा देश का सही विकास ||

स्वच्छ भारत अभियान है एक आस |
ताकि हो भारत देश का सम्पूर्ण विकास ||

स्वच्छता ही है एक मात्र उपाय |
जो सभी को हमेशा स्वस्थ बनाए ||

स्वच्छता है महा अभियान |
स्वच्छता में दीजिए अपना योगदान ||

हाथ से हाथ मिलाना है
गंदगी नहीं फैलाना है
स्वच्छता को अपनाना है

स्वच्छ भारत मिशन बलिया

श्री दिनेश कुमार विस्वकर्मा
(अधिशाषी अधिकारी)

श्री अजय कुमार
(अध्यक्ष)

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756